

आवेदन का संख्या

झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एंव विकास निगम

कल्याण कॉम्प्लेक्स, पहला तल्ला, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची – 834008

ईमेल—jsmfdc.ranchi@gmail.com दूरभाष संख्या — 0651–2552055

Photo of Applicant
(आवेदक का फोटो)

स्वं सहायता समूहों के लिए आवेदन पत्र

| | | | |
|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| ऋण विवरण | टर्म लोन | | |
| ऋण राशि (शब्दों में) | | | |
| ऋण राशि | | | |
| अवधि | माह | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| ऋण का उद्देश | | | |

नाम

पदनाम

पिता का नाम

माता का नाम

पति / पालि का नाम

राष्ट्रीयता

भारतीय

अन्य

| क्र.सं | परिवारों के सदस्यों की संख्या | उम्र | लिंग | सम्बन्ध | पेशा | वार्षिक आय |
|--------|-------------------------------|------|------|---------|------|------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

आवासीय पता :

शहर

पिन कोड

डाकघर

जिला

राज्य

विद्युत भूमि

टेलीफोन नं०

मोबाइल नं०

जन्म तिथि

उम्र

स्थायी पता :-

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | |

शहर

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

डाकघर

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

राज्य

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

वैवाहितरिक्ति

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

विवाहित

पिन कोड

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

जिला

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

चिह्नित भूमि

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

जाति

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

विकलांगता

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

आवाहित

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

अन्य

हाँ

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

नहीं

व्यवसाय का प्रकार

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|----------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| <input type="text"/> | नौकरी | <input type="text"/> | सेवा निवृत | <input type="text"/> | गृहिणी | <input type="text"/> | विद्यार्थी | <input type="text"/> | व्यवसाय | <input type="text"/> | स्वनियोजित | <input type="text"/> | निजी क्षेत्र | <input type="text"/> |
|----------------------|-------|----------------------|------------|----------------------|--------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|

कैंटार्ड सीरी०

(A) आधार

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(B) नरेगा जॉब कार्ड न.

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(C) पहचान पत्र

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(D) पैन कार्ड

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(E) ड्राइविंग लाइसेंस

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(F) ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने की अंतिम तिथि

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

(Z) अन्य पहचान पत्र

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

निर्गत पदाधिकारी

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

दिनांक

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

आवेदक का हस्ताक्षर

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |